



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART III—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3056]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 3, 2018/श्रावण 12, 1940

No. 3056]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 2018/SHRAVANA 12, 1940

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 02 अगस्त 2018

का.आ 3850(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 16 फरवरी, 2018 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 702(अ), तारीख 15 फरवरी, 2018 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, राजस्थान राज्य के सिरोंही जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक भास्कर" तारीख 28 फरवरी, 2018 में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को कोई भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के सिरौही जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम : सिरौही

तहसील का नाम : आबूरोड़

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हैक्टर में	भूमि धारक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	मावल	1155/675	निजी	कृषि	0.1265	गणेश पुत्र फता कौम रेबारी साकिन देह खातेदार ।
		670	निजी	कृषि	0.1644	भीखालाल पुत्र धन्नालाल कौम मेगवंशी साकिन देह खातेदार ।
		677	निजी	कृषि	0.0252	सुनिल पुत्र धर्मदत्त 1/3, वासुदेव पुत्र धर्मदत्त 1/3, रवीन्द्रनाथ धर्मदत्त 1/3 जाति बोहरा निवासी सांतपुर खातेदार । रहन :- सुनिल पुत्र धर्मदत्त हि 1/3 राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा सांतपुर के पक्ष में रहन ।

[फा. सं. 2013/एलएमएल/II/12/8/डब्ल्यूसी/955]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2018.

S.O 3850(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 702(E), dated the 15th February, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 16th February, 2018 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district Sirohi, in the State of Rajasthan;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, “Rajasthan Patrika”, and “Dainik Bhaskar” dated the 28th February, 2018 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district Sirohi, in the State of Rajasthan

Name of the District: Sirohi

Name of the Tehsil: Aburoad

Serial Number	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectares	Name of the Land Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	Maval	1155/675	Private	Agriculture	0.1265	Ganesh s/o Fata caste Rebari sakin deh khatedar.
		670	Private	Agriculture	0.1644	Bheekhalal s/o Dhannalal caste Megvanshi sakin deh khatedar.
		677	Private	Agriculture	0.0252	Sunil Datt s/o Dharm Datt 1/3, Vasudev s/o Dharm Datt 1/3, Ravindra Nath s/o Dharm Datt 1/3, caste Bohara Brahman resident Santpur Khatedar Mortgage- Sunil Datt s/o Dharm Datt 1/3, Marudhara Gramin Bank branch Santpur.

[F. No. 2013/LML/II/12/8/WC/955]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land and Amenities-1)